



MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/ 2020-21/49

Date: August 14, 2020

To,

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex
Bandra(E), Mumbai – 400051
Trading Symbol: MAYURUNIQU

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 522249

Subject: Newspaper advertisement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter ended on June 30, 2020

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter ended on June 30, 2020 published in the English and Vernacular Language newspaper on August 14, 2020.

You are kindly requested to take the same on record.


Thanking you,

For Mayur Uniquoters Limited

Rahul Joshi
Company Secretary and Compliance Officer
M.No.A33135



A Texture For Every Idea



Correspondance Address:

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423

Regd. Office & Works: Village Jaipura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420

Email: info@mayur.biz • www.mayuruniquoters.com

Equity markets end marginally lower

FE BUREAU
Mumbai, August 13

EQUITIES ON THURSDAY ended marginally lower, with the 50-share index Nifty declining 7.95 points, or 0.07%, to close at 11,300.45. The Sensex fell 59.14 points, or 0.15%, to close at 38,310.49. The markets were pulled down by the index heavyweights and mixed global cues on uncertainty regarding fiscal stimulus measures in the US.

The markets started the day strong with a gap-up opening, but witnessed selling throughout the session.

Sanjeev Hota, head of research, Sharekhan by BNP Paribas, said: "After a strong run-up in the markets and the recovery we have seen, there could be some profit taking that is happening which is why the markets could be trading flat. Nevertheless, we have not seen any negative surprises in the Q1 results and the management commentary



remained encouraging. Globally, markets continue to remain strong and we expect the momentum to continue. However, investors should stick to quality stocks and stay away from risky bets." On the weekly options expiry, the futures and options segment on the Nifty witnessed strong volumes -- it saw a turnover worth ₹33.7 lakh crore, against the six-month average of ₹14.9 lakh crore. The cash market saw

volumes worth ₹58,321.56 crore, against the six-month average of ₹51,793 crore.

Foreign portfolio investors have been pumping capital into Indian equities too. In August so far, FPIs have pumped in \$1.2 billion.

Siddhartha Khemka, head of retail research, Motilal Oswal Financial Services, said, "Going ahead, the market is likely to be volatile, largely mirroring global cues. Investors would look out for fresh triggers amid continued surge in domestic coronavirus cases. AGR case hearing on Friday would keep telecom and banking stocks in focus."

Major gainers on the Nifty were Tata Motors, L&T, Hindalco, Titan and Bharti Infratel, up by 4.59%, 4.39%, 4.21%, 3.92%, and 3.72%, respectively.

Significant losers were Sun Pharmaceuticals, Eicher Motors, Bharti Airtel, HDFC Life and ITC, down by 2.1%, 2.06%, 2.04%, 1.5%, and 1.42%, respectively.

RBI slaps ₹10L penalties on 4 co-op banks

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, August 13



THE RESERVE BANK of India (RBI) on Thursday said it has imposed a total penalty of

₹10 lakh on four cooperative banks for deficiencies in regulatory compliance.

A penalty of ₹5 lakh has been imposed on Jowai Co-operative Urban Bank for contravention of the directions issued by the RBI on 'Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions-UCBs', the central bank said.

The RBI has also imposed a penalty of ₹2 lakh each on Krishnanagar City Co-operative Bank and Tura Urban Cooperative Bank for similar contraventions.

In a separate statement, the RBI said a penalty of ₹1 lakh has been slapped on Co-operative Urban Bank for contravention of the directions issued by it on 'Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions-UCBs'.

Castor seeds contract case: Regulator lifts trading ban on Ruchi Global, Ruchi Soya

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 13

MARKETS REGULATOR SEBI has lifted the trading ban on five entities, including Ruchi Global and Ruchi Soya Industries, in a case related to alleged manipulation in castor seeds trading.

National Steel & Agro Industries, Secunderabad Oils, and UKS Oils are the other entities from whom the ban has been lifted.

Through two interim orders passed in March 2016 and May 2016, Sebi had barred the five entities, among others, from the securities markets for alleged fraudulent and manip-

ulative trading in castor seeds on the NCDEX.

Later, in March 2017, the directions issued against them were confirmed.

In an order passed on Wednesday, Sebi revoked the direction issued against the five entities with immediate effect.

In the show cause notice (SCN), it was alleged that by taking open interest (OI) positions in excess of the prescribed limits, the five entities were able to corner the market at the expense of other clients, and thus had traded in a fraudulent and deceitful manner and their excess OI positions created a false or misleading appearance in the market.



The SCN further said Ruchi Global and Ruchi Soya Industries and National Steel & Agro Industries belonged to one distinct group, while Secunderabad Oils and UKS Oils belonged to another distinct group.

"In the absence of any material to show that these two distinct groups were con-

nected to each other and traded in the castor seeds contracts in a concerted manner to manipulate the market, it is not correct to allege that the five notices together cornered the derivative market in castor seeds contract...in violation of PFUTP Regulations, 2003 and at the expense of other clients," Sebi said.

It said the SCN does not provide any details as to whether these two distinct groups had coordinated between themselves to carry out such cornering of the market involving violation of the PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) Regulations.

Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaitpura, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.
Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC00682 Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

(Rs. In Lakhs, except share and per share data, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Unaudited)*	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2019 (Audited)	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Unaudited)*	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,805.36	13,943.59	12,820.31	51,646.43	3,890.70	13,111.05	12,735.47	52,800.29
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	116.56	3,569.33	2,430.05	10,586.25	23.11	3,280.69	1,654.80	10,355.51
3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	116.56	3,569.33	2,430.05	10,586.25	23.11	3,280.69	1,654.80	10,355.51
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	81.47	2,658.27	1,586.21	8,064.29	9.28	2,482.83	974.05	7,977.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	77.45	2,690.04	1,605.74	8,196.71	7.27	2,263.73	956.90	7,715.57
6	Equity Share Capital	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38	2,266.38
7	Other Equity [Reserves (Excluding Revaluation Reserve)] as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	56,449.77	-	-	-	55,470.23
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each)								
	1. Basic:	0.18	5.86	3.50	17.79	0.02	5.48	2.15	17.60
	2. Diluted:	0.18	5.86	3.50	17.79	0.02	5.48	2.15	17.60

*The figures for the quarter ended March 31, 2020 have not been subjected to review / audit by the statutory auditors. These are the balancing figures between the standalone/consolidated audited financial statements for the full year ended March 31, 2020 and published year to date unaudited figures for the nine months ended December 31, 2019.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine months /Annual Financial Results is available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com, and the Company's website i.e. www.mayuruniquoters.com.

The outbreak of Covid-19 pandemic and consequent lockdown has impacted the regular business operations. The results for the quarter are therefore not comparable with those for the previous quarter. The Company/Group has considered the possible effects that may result from Covid-19 in the preparation of these interim financial results for the quarter ended June 30, 2020. In assessing the carrying value of its assets and liabilities, the Company/Group has considered internal and external information available, and based on such information and assessment, no further adjustments are required to be made. The impact of the pandemic may differ from that estimated as at the date of approval of these interim financial results. The Company/Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

For and on behalf of the Board of Directors
(Suresh Kumar Poddar)
Chairman & Managing Director & CEO
DIN -0002395

Place: Jaipur
Date: August 13, 2020

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

firstsource
Stay Ahead

Firstsource Solutions Limited

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(Rs. in millions, except per share data and per equity data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		June 30, 2020 Audited	March 31, 2020 Audited	June 30, 2019 Audited	March 31, 2020 Audited
1	Total Income from Operations	10,620.64	10,810.42	9,783.40	41,074.57
2	Net Profit / (Loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,034.79	1,031.00	1,069.01	3,942.11
3	Net Profit / (Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,034.79	1,031.00	1,069.01	3,942.11
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	886.75	915.78	911.76	3,396.85
5	Total Comprehensive Income for the period/year	1,029.12	2,086.47	902.89	4,587.32
6	Paid up equity share capital	6,940.08	6,938.27	6,930.10	6,938.27
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	20,715.55
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	a. Basic:	1.29	1.32	1.32	4.90
	b. Diluted:	1.27	1.31	1.32	4.89

Notes:
1 Additional Information on standalone financial results (Audited) is as follows:

Particulars	Quarter ended			Year ended
	June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
Total income from operations	2,562.24	2,677.36	2,122.93	9,707.12
Net profit before taxation	669.00	610.81	545.97	2,119.92
Net profit after taxation	607.68	510.00	485.60	1,820.15

2 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company website (www.firstsource.com).

By order of the board
For Firstsource Solutions Limited

Sd/-
Vipul Khanna
Managing Director & CEO

Place : Mumbai, India
Date : August 12, 2020

Firstsource Solutions Limited, CIN: L64202MH2001PLC134147
Registered Office: 5th Floor, Paradigm 'B' wing, Mindspace, Link Road, Malad (West), Mumbai 400 064, India
Tel: + 91 22 6666 0888 • Fax: + 91 22 6666 0887 • Web: www.firstsource.com
Email: complianceofficer@firstsource.com

TATA STEEL LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001 India
Tel.: 91 22 6665 8282 • Email: cosec@tatasteel.com • Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260

NOTICE

Extract of Standalone Financial Results for the quarter ended on 30th June 2020

₹Crores

Particulars	Quarter ended on 30.06.2020	Quarter ended on 31.03.2020	Quarter ended on 30.06.2019	Financial year ended on 31.03.2020
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total revenue from operations	9,338.78	14,211.43	16,091.32	60,435.97
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(505.44)	1,913.78	2,443.90	8,314.56
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,553.46	(95.70)	2,403.15	6,610.98
Net Profit / (Loss) for the period after tax	1,193.27	(436.83)	1,538.99	6,743.80
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,207.44	(921.39)	1,489.43	6,094.93
Paid-up equity share capital [Face value ₹10 per share]	1,146.13	1,146.13	1,146.12	1,146.13
Reserves excluding revaluation reserves	74,574.80			73,416.99
Basic earnings per share of ₹10 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	9.98	(4.24)	13.05	57.11
Diluted earnings per share of ₹10 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	9.98	(4.24)	13.05	57.11

Extract of Consolidated Financial Results for the quarter ended on 30th June 2020

₹Crores

Particulars	Quarter ended on 30.06.2020	Quarter ended on 31.03.2020	Quarter ended on 30.06.2019	Financial year ended on 31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total revenue from operations	24,288.51	33,769.95	35,947.11	1,39,816.65
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(3,396.00)	1,906.40	1,803.01	3,520.33
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(3,337.64)	(1,499.45)	1,819.01	(231.72)
Net Profit / (Loss) after tax from Continuing Operations	(4,609.17)	(1,236.17)	695.19	2,336.69
Net Profit / (Loss) after tax from Discontinued Operations	(38.96)	(379.18)	18.84	(1,164.23)
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(9,631.00)	3,561.99	388.23	5,655.29
Paid-up equity share capital [Face value ₹ 10 per share]	1,144.95	1,144.95	1,144.94	1,144.95
Reserves (excluding revaluation reserves) and Non controlling interest				72,742.95
Earnings per equity share (for continuing operations):				
Basic earnings per share of ₹10 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	(38.64)	(10.00)	5.73	22.02
Diluted earnings per share of ₹10 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	(38.64)	(10.00)	5.73	22.02
Earnings per equity share (for continuing and discontinued operations):				
Basic earnings per share of ₹10 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	(39.01)	(13.37)	5.88	11.86
Diluted earnings per share of ₹10 each (not annualised) - in Rupees (after exceptional items)	(39.01)	(13.37)	5.88	11.86

Note:
The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated results for the quarter ended on 30th June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated results for the quarter ended on 30th June, 2020 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.tatasteel.com).

T V Narendran
Chief Executive Officer & Managing Director

Koushik Chatterjee
Executive Director & Chief Financial Officer

Mumbai: August 13, 2020

TATA STEEL

